

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 464]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर 2015—कार्तिक 28, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2015

फा. क्र. 17(ई)-261-2015-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला रतलाम (म. प्र.) हेतु 24-रतलाम (अजजा) संसदीय क्षेत्र के उप चुनाव 2015-16 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को उपचुनाव निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

219—रतलाम ग्रामीण (अजजा) के लिये नियोजित सेक्टर ऑफिसर/झोनल मजिस्ट्रेट

क्र	नाम	पद	विभाग का नाम	मोबाईल नं.	संवर्ग
1.	श्री दिनेश वर्मा	एडिशनल सी.ई.ओ.	जिला पंचायत रतलाम	9425438193	कार्यपालिक
2.	श्री एस.आई. अली	उपयंत्री	लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग	9425916339-88	कार्यपालिक
3.	श्री व्ही. एस. ठकराव	सी.ई.ओ पिपलोदा	जनपद पंचायत पिपलोदा	8989452241	कार्यपालिक
4.	श्री रजनीकान्त झामर	सहा.यंत्री	जल संसाधन विभाग	9425356215	कार्यपालिक
5.	श्री ए.आर.मईडा	सहा.परियोजना	कृषि विभाग रतलाम	9993990486	कार्यपालिक
6.	श्री पवन दमाडे	सहायक यंत्री	म.प्र. गृह निर्माण	9406660290	कार्यपालिक
7.	श्री पवन चौहान	पी.ओ.एन.ई जी एस	जिला पंचायत रतलाम	9893505505	कार्यपालिक
8.	श्री हरीश कुमावत	एस डी ओ	जलसंसाधन	9754242729	कार्यपालिक
9.	श्री अजयसिंह बघेल	कार्यपालन यंत्री	विद्युत्त सुरक्षा	9826779426	कार्यपालिक
10.	श्री अनिल बागोले	अनुविभागीय अधि.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	9424076078	कार्यपालिक
11.	श्री यू पी अहिरवार	प्राचार्य	आईटीआई रतलाम	9425623760	कार्यपालिक
12.	श्री के.पी.वर्मा	ई.ई.	पी.एच.ई रतलाम	9406940099	कार्यपालिक
13.	श्री रतन सिंह कटारा	सहायक संचालक	उपसंचालक उद्यानिकी	9993144622	कार्यपालिक
14.	श्री दीपक गुजराती	परियोजना यंत्री	लो.नि.विभाग (पीआय.यु.)	8878822216	कार्यपालिक
15.	श्री संजय शर्मा	एस.डी.ओ.	पीएचई रतलाम	9425417076	कार्यपालिक
16.	श्री एस एस शाक्य	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत आलोट	9826656590	कार्यपालिक
17.	श्री आर. के. गुप्ता	एस.डी.ओ.	सेतु निगम, रतलाम	9425429190	कार्यपालिक
18.	डा. नवीन शुक्ला	व्ही.ए.एस.	पशु चिकित्सा सेवा रतलाम	8100033193	कार्यपालिक
19.	श्री एन.एस.सिसोदिया	उपयंत्री	ग्रा.या.सेवा रतलाम	9479405782	कार्यपालिक
20.	श्री गिरीश पुरोहित	उपयंत्री	जलसंसाधन विभाग रतलाम	9425107316	कार्यपालिक
21.	श्री टी आर परिहार	उपयंत्री	जनपद पंचायत रतलाम	9424020704	कार्यपालिक
22.	श्री जी वी वामनकर	प्राचार्य	पोलेटेनिक जावरा	9685936472	कार्यपालिक
23.	श्री भारतसिंह मंडलोई	परियोजना यंत्री	लो.नि.विभाग (पीआय.यु.)	9575759604	कार्यपालिक
24.	श्री मितेन्द्र चौधरी	प्रबंधक	उद्योग विभाग रतलाम	9424882999	कार्यपालिक
25.	श्री प्रशान्त जोशी	परियोजना यंत्री	लो.नि.विभाग (पीआय.यु.)	9827340963	कार्यपालिक
26.	श्री मुकेश कलमे	उपयंत्री	ग्रा.या.सेवा रतलाम	9039402770	कार्यपालिक
27.	श्री सुरेन्द्र जैन	सहायक प्रबंधक	उद्योग विभाग रतलाम	9425104843	कार्यपालिक
28.	सुश्री रेशम गामड	उपयंत्री	ग्रा.या.सेवा रतलाम	9893629224	कार्यपालिक
29.	कल्पना सुरोलिया	परियोजना अधिकारी	महिला सशक्तिकरण	9827912308	कार्यपालिक
30.	श्री दिनेश केथवास	उपयंत्री	जनपद पंचायत रतलाम	9827351280	कार्यपालिक
31.	श्री विनोद नामदेव	उपयंत्री	जनपद पंचायत रतलाम	9755600837	कार्यपालिक
32.	श्री क्यू ए खान	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	9907251205	कार्यपालिक

220—रतलाम शहर के लिये नियोजित सेक्टर ऑफिसर/झोनल मजिस्ट्रेट

क्र	नाम	पद	विभाग का नाम	मोबाईल नं.	संवर्ग
1	श्री आर एल कारपेटर	ग्रौढ शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा केन्द्र रतलाम	9424592125	कार्यपालिक
2	श्री एन.के.छारी	सहा.भूमि संरक्षण अधि	सहा.भूमि संरक्षण जावरा	9926089617	कार्यपालिक
3	श्री अशोक शर्मा	स्वास्थ्य अधिकारी	नगर पालिका जावरा	9425491033	कार्यपालिक
4	डा.ओ.पी.गौर	पशु प्रजनन अधिकारी	पशु चिकित्सा रतलाम	9425029881	कार्यपालिक
5	श्री विक्रमसिंह सोलकी	मु न.पा.अधिकारी	मु न.पा. वडावदा जावरा	9827097885	कार्यपालिक
6	श्री सुरेन्द्र सिंह पवार	मु न.पा.अधिकारी	मु न.पा. आलोट	9630576786	कार्यपालिक
7	श्री बी एस कोठारी	उपायुक्त	सहकारिता रतलाम	9406611151	कार्यपालिक
8	श्री रामशरण गुप्ता	प्रोजेक्ट डायरेक्टर	आत्मा कृषि विभाग रतलाम	9425046811	कार्यपालिक
9	श्री बी एल कतीजा	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जावरा	9926369488	कार्यपालिक
10	श्री एस एल सोलंकी	एस.एच.डी0ओ	उद्यानिकी विभाग जावरा	9575586308	कार्यपालिक
11	श्री ए के राणा	उपसंचालक	पशु चिकित्सा सेवाये रतलाम	9406649301	कार्यपालिक
12	श्री चत्तर सिंह निनामा	सहायक आबकारी अधि	आबकारी रतलाम	9575780710	कार्यपालिक
13	श्री गजेन्द्र निगम	उपयंत्री	जनपद पंचायत रतलाम	9009025990	कार्यपालिक
14	श्री बसन्त चहान्दे	उपयंत्री	जलसंसाधन विभाग रतलाम	9827331558	कार्यपालिक
15	अंकिता पण्ड्या	सहायक संचालक	जिला महिला सशक्तिकरण	9406837268	कार्यपालिक
16	श्री एस.एल. चौहान	सहा.यंत्री	पी.एच.ई. रतलाम	9425104075	कार्यपालिक
17	श्री महेश कुमार चौबे	परियोजना प्रशासक	वाटरशेड रतलाम	9425369034	कार्यपालिक
18	श्री के एन शर्मा	श्रम पदाधिकारी	श्रम विभाग रतलाम	9754415988	कार्यपालिक
19	श्री रामविलाससिंह	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग रतलाम	9926569095	कार्यपालिक
20	श्री शिवमोहन वर्मा	सहा.यंत्री	जल संसाधन विभाग रतलाम	8926416289	कार्यपालिक
21	श्री मानकसिंह डाबर	उपयंत्री	ग्रा.या.सेवा रतलाम	9425943218	कार्यपालिक
22	श्री छत्रसालसिंह	उपयंत्री	ग्रा.या.सेवा रतलाम	9926494453	कार्यपालिक
23	श्री बी.एल.पण्डिया	उपयंत्री	ग्रा.या.सेवा रतलाम	9406855717	कार्यपालिक
24	श्री केसरीमल कासारे	उपयंत्री	जल ससाधनविभाग रतलाम	9926883085	कार्यपालिक
25	श्री एस पी सिंह	उपयंत्री	जल ससाधनविभाग रतलाम	9903277668	कार्यपालिक
26	श्री एन के जोशी	उपयंत्री	लोक स्वा यांत्रिकी विभाग	9424824905	कार्यपालिक